

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 495]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 5 अगस्त 2019 — श्रावण 14, शक 1941

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 5 अगस्त 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-5/2019/16. — छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्र. 25 सन् 1958) की धारा 59 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना नियम, 1959 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 59 की उप-धारा (3) के द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

1. नियम 4 एवं 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

- “4. पंजीयन प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की कालावधि.— धारा 6 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदान किया गया पंजीयन प्रमाणपत्र, नियोक्ता द्वारा यथा अधिसूचित बंद किये जाने की तारीख तक विधिमान्य रहेगा।
5. पंजीयन प्रमाणपत्र हेतु शुल्क.— धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक पंजीयन प्रमाणपत्र, स्थापनाओं के उस वर्ग के लिये नीचे विनिर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर जारी किया जायेगा—

स. क्र.	स्थापना के वर्ग	पंजीयन/ नवीनीकरण शुल्क रुपये में
1.	सभी स्थापनाओं के लिये, जहाँ कोई कर्मचारी नियोजित नहीं हैं	रु. एक सौ
2.	सभी स्थापनाओं के लिये, जहाँ 3 से अनधिक कर्मचारी नियोजित हैं	रु. एक सौ पचास
3.	सभी स्थापनाओं के लिये, जहाँ 3 से अधिक किन्तु 10 से कम कर्मचारी नियोजित हैं	रु. दो सौ
4.	सभी स्थापनाओं के लिये, जहाँ 10 या 10 से अधिक कर्मचारी नियोजित हैं	रु. दो सौ पचास

परन्तु सभी नियोजक, जिन्होंने 25-06-2014 के पूर्व पंजीयन प्राप्त कर लिया है, इन नियमों के संशोधन के पश्चात्, अनिवार्य रूप से पंजीयन प्राप्त करेंगे।”

2. नियम 6 में, परंतुक में, शब्द "पंजीयन या नवीनीकरण" के स्थान पर, शब्द "पंजीकरण" प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.डी. पुरबिया, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 5 अगस्त 2019

क्रमांक एफ 10-5/2019/16. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-5/2019/16, दिनांक 05-08-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.डी. पुरबिया, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 5th August 2019

NOTIFICATION

No. F 10-5/2019/16. — In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 59 of the Chhattisgarh Shops and Establishments Act, 1958 (No. 25 of 1958), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh shops and Establishments Rules 1959, the same having been previously published as required by sub-section (3) of Section 59 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For rule 4 and 5, the following shall be substituted, namely:-

"4. Period of validity of Registration Certificate.- The Registration Certificate granted under sub-section (3) of Section 6 shall remain valid till the date of closure as notified by the employer.

5. Fees for Registration Certificate.- Every registration certificate issued under sub-section (2) of Section 6 shall be issued on payment of a fee specified below for that class of establishment-

S.No.	Class of establishment	Registration/Renewal Fees in rupees
1.	All establishments having no employees	Rs. One hundred
2.	All establishments employing not more than 3 employees	Rs. One hundred fifty
3.	All establishments employing more than 3 but less than 10 employees	Rs. Two hundred
4.	All establishments employing 10 or more than 10 employees	Rs. Two hundred fifty

Provided that all the employers who have obtained registration before 25-06-2014 shall compulsorily obtain registration after the amendment of these rules."

2. In rule 6, in proviso, for the words "registration or renewal", the word "registration" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P.D. PURBIYA, Deputy Secretary.